

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE 14th Nov

गाँधी जयंती की 150वीं वर्ष गाँठ के अवसर पर देश की प्रसिद्ध संस्था विज्ञान भारती जिसने सामाजिक-वैज्ञानिक- आध्यात्मिक क्षेत्र में 2 दशक से भी अधिक समय तक कार्य किया है- ने स्वच्छता, पर्यावरण व देशी विज्ञान अभियान पर NIET कालेज के कठपुतलियन थिएटर क्लब के मेधावी इन्जीनियर विद्यार्थी ग्रुप द्वारा 14 नवंबर को नुक्कड रोड शो का आयोजन कराया जिसमें श्री ब्रजेश नारायण सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, गौतम बुद्ध नगर ने अध्यक्षता की। स्वच्छता सेवार्थ कार्यक्रम के प्रणेता व अध्यक्ष, विज्ञान भारती, दिल्ली डॉ. देवेन्द्र प्रकाश भट्ट ने इस शुभावसर में जिला मजिस्ट्रेट सहित विभिन्न समाज के शिष्ट वर्ग का प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसका उद्घाटन 1.30 बजे जिलाधिकारी प्रांगण, सुरजपुर, ग्रेटर नौएडा में हुआ व इस अवसर में श्री ब्रजेश नारायण सिंह, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विज्ञान भारती के बारे में समूचे देश के परिपेक्ष्य में विस्तार से प्रकाश डाला गया व श्रृंखला मोहिम अन्य जगहों पर भविष्य में चलती रहे, इसके लिए आयोजकों को प्रेरित किया। मुख्य अतिथि, श्री धीरेन्द्र सिंह, मान.

विधायक (जेवर) उ. प्र.ने उद्बोधन में राष्ट्रीय विकास में विज्ञान भारती-दिल्ली की बढ़ती ताकत का उपयोग करने का युवाओं को आह्वान किया। डॉ. देवेन्द्र प्रकाश भट्ट ने अपने उद्बोधन में बताया कि तथापि जब हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास की बात करते हैं, हम यह भूल जाते हैं कि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमारा सबसे लम्बा इतिहास है और इसलिए हमारा पहला लक्ष्य स्वदेशी व विदेशी ज्ञान से संबद्ध भ्रान्त धारणाओं को निर्मूल सिद्ध करना और स्वास्थ्य प्रणालियों सहित प्राकृतिक और समाज विज्ञान दोनों में प्राचीन भारत की महान उपलब्धियों को प्रकट करते हुए ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीयता का वातावरण तैयार करना है। प्राचीन भारत में दक्षता से उस समय के लोगों की कर्मण्यता के परमोत्कर्ष "योगा कर्मेषु कौशलम्" उक्ति के आधार पर बल देकर डॉ. भट्ट ने सबको सरकार की मुहिम पर स्वच्छता के लिए आग्रह किया। विद्यार्थी ग्रुप द्वारा नुक्कड नाटक प्रदर्शन के माध्यम से सुन्दर समझाया गया कि कैसे हमारा पुरातन विज्ञान रोज मर्रा जीवन का महत्वपूर्ण समन्वित हिस्सा है जैसे महान गणितज्ञ आर्य भट्ट व स्वास्थ्य विशेषज्ञ चरक के कार्यों की युवा वर्ग को जागरूकता तथा आधुनिक विज्ञान के सिरमौर प्रसिद्ध डा. ए पी जे अब्दुल कलाम की जीवनी का उल्लेख कर उसका सामंजस्य आम जनता के समक्ष प्रदर्शित किया जाएगा जो स्वच्छता जागरूकता अभियान की मुहिम में चार चाँद लगाएगा व विज्ञान, स्वच्छता तथा समाज के बीच शहर के नागरिकों के साथ ताना बाना स्थापित करेगा। इस प्रकार स्वच्छता अभियान मुहिम के माध्यम से संकलित नाटक द्वारा वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, ब्यूरोक्रेट्स व समाज के शिष्ट वर्ग का राजनैतिक नेताओं के समान ध्येय के साथ हम कैसे नजदीकी संपर्क का इंटरफ़ेस कर पाएँगे, इस पर कठपुतलियन थियेटर क्लब के विद्यार्थी प्रकाश डालेंगे। अंत में आत्मगत नाट्य भाषण यानि ड्रामेटिक मोनोलोग के तहत देश के जिम्मेदार नागरिकों के मुख्य कर्तव्य पर नुक्कड प्ले का निष्कर्ष पेश होगा। श्री एस सी अरोड़ा, डी जी एम, ग्रेटर नौएडा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट आथोरिटी व श्री ब्रजेश नारायण सिंह, जिला मजिस्ट्रेट के

द्वारा नुककड् प्ले की छात्राओं को विज्ञान भारती प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया A रेजिडेंटस् के निवेदन पर यही स्वच्छता, पर्यावरण व देशी विज्ञान नुककड् प्ले अभियान दोबारा आज ही पी3 सेक्टर, ग्रेटर नौएडा में 3.30 बजे आयोजित किया व समापन रोड शो में श्री अन्न पंडित, जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, गौ.बु. नगर विशिष्ट अतिथि रहे और उन्होंने युवाओं को अपने ईर्दगिर्द व घर में सफाई के साथ मानसिक शुद्धता पर बल देकर देश हित पर कार्य करने का संबल दिया । डॉ. एस सी गर्ग ने समापन रोड शो की अध्यक्षता की व सभी सेक्टरों के पधारे रेजिडेंटस् तथा विभिन्न समाज के शिष्ट वर्ग का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में डा. रश्मि मिश्रा, डा. फहद खान, श्री सुनील कुमार, एस सी गर्ग, रोशन अग्रवाल, प्रतिभा पान्डे, मीनू अग्रवाल, , इत्यादि सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों की सहभागिता रही । डा. रश्मि मिश्रा व डा. फहद खान ने इस कार्यक्रम का संचालन किया । डा. भट्ट ने जानकारी दी कि नुककड् शो के बाद उनकी संस्था विज्ञान भारती की आज ही भविष्य कार्यक्रम तय करने हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी माँ कुटीर पी३ में बैठक हुई